

प्रेषक,

एम0एस0चौहान,  
अनु सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं पिथौरागढ़।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के जनपदों में लगातार हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत अतिवृष्टि से प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान इत्यादि मदों के अंतर्गत धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के जनपदों में लगातार हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत अतिवृष्टि से प्रभावितों में तत्काल राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान इत्यादि मदों में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं पिथौरागढ़ को ₹ 5.00 करोड़ प्रति जनपद की दर से कुल ₹ 20.00 करोड़ (₹ बीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 2- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-475/XVIII-(2)/F/13-4(27)/2010, दिनांक 27 जून, 2013 के माध्यम से कुछ राहत मदों में सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- 3- भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 एवं संख्या-32-3/2012-NDM-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये हैं। जिसकी प्रति पूर्व में आपको प्रेषित करा दी गई है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिन दरों को राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त शासनादेश के माध्यम से पुनरीक्षित कर दिया गया है, उन मदों में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित राहत सहायता ही उपलब्ध करायी जायेगी। शेष मदों में केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षित दरों पर राहत सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- 4- स्वीकृत धनराशि अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान की मदों में ही नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परतापूर्वक कराया जायेगा, जिससे प्रभावितों में शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि का वितरण सुनिश्चित हो सके।
- 7- प्रभावितों की सम्यक पहिचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की

*h*

क्र.श. 2

अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- 8- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 9- स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 10- अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में कोषागार नियम-24 के अंतर्गत धनराशि का तभी आहरण किया जाए, जब जनपद के पास इस मद में कोई धनराशि उपलब्ध न हो एवं धनराशि का तत्काल वितरित किया जाना आवश्यक हो। आहरित धनराशि प्रत्येक दशा में तीन दिन के अन्दर वितरित कर दी जाए।
- 11- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-00-13 आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
- 12- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या-55 NP/वित्त अनु0-5/2013 दिनांक 03 जुलाई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एस0चौहान)  
अनु सचिव

संख्या-497(1)/XVIII-(2)/F/13-12(4)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं पिथौरागढ़।
- 6- बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 7- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)  
अनु सचिव